



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1944 (श10)

(सं0 पटना 986) पटना, शुक्रवार 18 नवम्बर 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2022

सं0 14/डी0एल0ए0-(प्राधिकार)-नियुक्ति-02/2022-1382/रा0-भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) की धारा-55 एवं बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के अध्याय-IX के नियम-35 के तहत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर राज्य के 09 प्रमंडलीय मुख्यालयों में अवस्थित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) में निबंधक के पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है।

2. इस हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-49178/Admn.(Apptt.)/XXIX-159-2021, दिनांक-20.08.2022 के द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के आलोक में बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग (प्रमंडल) के मुख्यालयों यथा- भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियां, सहरसा एवं सारण में स्थापित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालयों में निबंधक के पद पर निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन स्थल	पदस्थापन किये जानेवाले प्राधिकार न्यायालय का नाम
1	2	3
1	श्री दिनकर कुमार, सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., भागलपुर।	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, भागलपुर।
2	श्री प्रणव कुमार भारती, सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., बेनीपुर, दरभंगा।	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, दरभंगा।

3	श्री प्रकाश कुमार राय, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., गया।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, गया।
4	श्री सौरभ कुमार वर्मा, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., मुंगेर।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, मुंगेर।
5	श्री राजीव कुमार, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., मुजफ्फरपुर (पूर्व)।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, मुजफ्फरपुर।
6	श्री अरविन्द कुमार सिंह, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., पटना।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, पटना।
7	श्री शमीम रजा, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., बनमनखी (पूर्णिमा)।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, पूर्णिमा।
8	श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., सहरसा।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, सहरसा।
9	श्री नन्द किशोर, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., सोनपुर (सारण)।	भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, सारण।

3. प्राधिकार के निबंधक के वेतन एवं भत्ते का भुगतान महालेखाकार, बिहार/वित्त(बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत वेतन पूर्जा के आधार पर किया जाएगा।

4. निबंधक की अन्य सेवा शर्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत सब—जज पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय—समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

5. निबंधक के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू—राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू—अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0—40 विपत्र कोड संख्या—एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. निबंधक का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक—1292/रा0 दिनांक—20.11.2015 द्वारा निबंधक के सृजित स्थायी पदों के विरुद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे।

7. नवनियुक्त सभी निबंधकों को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त पर सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा/सहमति प्राप्त है।

9. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
निदेशक, भू—अर्जन—सह—अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 986-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>